



स मा चार

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश समाचार

श्री केदारनाथ शुक्ल होंगे विधान सभा की कृषि विकास समिति के सभापति

भोपाल : 24 अप्रैल, 2017

वर्ष 2017-2018 की अवधि के लिए मध्यप्रदेश विधान सभा की सदन समितियों के गठन के क्रम में विधान सभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा द्वारा कृषि विकास समिति, पुस्तकालय, अनुसंधान एवं संदर्भ समिति, पटल पर रखे गये पत्रों पर परीक्षण करने संबंधी समिति तथा आचरण समिति का गठन किया गया है।

विधान सभा अध्यक्ष डॉ. शर्मा ने श्री केदारनाथ शुक्ल को कृषि विकास समिति का सभापति नियुक्त किया है। सर्वश्री गोविन्द सिंह पटेल, जयवर्द्धन सिंह, जितू पटवारी, दीवान सिंह पटेल, नारायण सिंह कुशवाह, नारायण सिंह पवार, बहादुर सिंह चौहान, राजेन्द्र वर्मा, लखन पटेल एवं विजय सिंह सोलंकी इस समिति के सदस्य नामांकित किये गये हैं।

श्री प्रहलाद भारती पुस्तकालय, अनुसंधान एवं संदर्भ समिति के सभापति नियुक्त किये गये हैं। श्रीमती अनीता नायक, श्रीमती गायत्रीराजे पवार, श्रीमती झूमा सोलंकी, सुश्री मंजू श्यामलाल दादू, श्रीमती शकुन्तला खटीक सर्वश्री कमलेश शाह, कालूसिंह ठाकुर, नागर सिंह चौहान, प्रेम सिंह, महेश राय, मथुरा लाल, मंगलसिंह धुर्वे, यादवेन्द्र सिंह, रमेश पटेल, राजकुमार मेव, रामकिशन पटेल, शान्तिलाल बिलवाल, शैलेन्द्र पटेल, सत्यपाल सिंह सिकरवार, सतीश मालवीय एवं हर्ष यादव इस समिति में सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किये गये हैं।

पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का श्री हेमन्त खण्डेलवाल को सभापति नियुक्त किया गया है। श्रीमती झूमा सोलंकी, श्रीमती नीलम अभय मिश्रा, सर्वश्री अमर सिंह यादव, अनिल जैन, जतन उइके, नथन शाह कवरेती, रामलल्लू वैश्य, सुरेन्द्र नाथ सिंह, हरवंश राठौर एवं हरदीप सिंह डंग इस समिति के सदस्य होंगे।

पंडित रमेश दुबे को आचरण समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। श्रीमती नंदनी मरावी, श्रीमती मालिनी गौड़, सर्वश्री कमल मर्सकोले, गोपाल सिंह चौहान, ठाकुरदास नागवंशी, पन्नालाल शाक्य, भंवरसिंह शेखावत, महेन्द्र सिंह चौहान, मुकेश नायक एवं संजय उइके इस समिति में सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किये गये हैं।

वि.स./ज.स./2017

(मुकेश मिश्रा)
अवर सचिव